



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 9] नई दिल्ली, मार्च 15—मार्च 21, 2015, शनिवार/फाल्गुन 24—फाल्गुन 30, 1936
No. 9] NEW DELHI, MARCH 15—MARCH 21, 2015, SATURDAY/PHALGUNA 24—PHALGUNA 30, 1936

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं
Orders and Notifications Issued by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2015

आ.अ. 19.—यतः, निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट तमिलनाडु राज्य में लोक सभा हेतु साधारण निर्वाचन, 2014 में नीचे की सारणी के स्तम्भ 3 में विनिर्दिष्ट, निर्वाचन क्षेत्र से, स्तम्भ 4 के सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ 5 में यथादर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहा है;

और यतः, उक्त अभ्यर्थी ने निर्वाचन आयोग द्वारा सम्यक् नोटिस दिए जाने के बावजूद उक्त असफलता के लिए कोई कारण या स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिए गए अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् भारत निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उक्त असफलता के लिए उनके पास कोई उपयुक्त या न्यायोचित कारण नहीं है;

अतः, अब, निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी सदन या किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के लिए सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए निरर्हित घोषित करता है :-

सारणी

क्रम सं.	निर्वाचनों का विवरण	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या व नाम	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम व पता	निरर्हता का कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	लोक सभा साधारण निर्वाचन, 2014	31-शिवगंगा	मेगराज मल्लार, डी. नं. 1289, आदि द्रविडार कॉलोनी, पेरियाकईयागम, वार्ड-7, थेरिरूवेली डाकघर, मुथुकलाथुर तालुक, रामानाथपुरम-623711 रामानाथपुरम जिला	विधि के अनुसार लेखा दाखिल नहीं किया।
2.	-वही-	-वही-	सरवानन एम. नं. 11/5, लक्ष्मी ईल्लम, कामराजर सालै, कलानिवासल न्यू रोड, कराईकुडी, शिवगंगई जिला	-वही-
3.	-वही-	32-मदुरई	चंद्र बोस, पी. 7/5/1, पारासक्थी नगर, अवानीयापुरम, मदुरई-625012	-वही-
4.	-वही-	36-थूथुक्कुडी	सांथादेवी एस. 3/167, ग्रामाचावाडी स्ट्रीट, करुंगुलम, श्रीवायकुन्टम तालुक-628615	-वही-
5.	-वही-	-वही-	विन्स्टन अन्टो, एस. 19, सेथुराजा स्ट्रीट, थूथुक्कुडी-628001	-वही-

[सं. 76/तमिलनाडु-लो.स./2014]
आदेश से,
तपस कुमार, वरिष्ठ प्रधान सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

New Delhi, the 12th March, 2015

O. N. 19 .—Whereas, the Election Commission of India is satisfied that each of the contesting candidate specified in column 4 of the Table below at the General Election to the Lok Sabha, 2014 from the State of Tamil Nadu specified in column 2 and held from the constituency specified in column 3 against his/her name has failed to lodge the account of his/her election expenses as shown in column 5 of the said Table as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules made thereunder:

And whereas, the said candidates have either not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice by the Election Commission or after considering the representation made by them, if any, the Election Commission is satisfied that they have no good reason or justification for the said failure:

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the persons specified in column 4 of the Table below to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order:-

TABLE

Sl. No.	Particular of Election	Sl. No. & Name of Parliament Constituency	Name & Address of Contesting Candidate	Reasons for Disqualification
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	General Election to Lok Sabha, 2014.	31-Sivaganga	Megaraj Mallar, D.No. 1289, Adi Diravidar Colony, Periyakaiyagam, Warc-7, Theriruvveli Post, Muthukulathur Taluk, Ramanathapuram-623711 Ramanathapuram District	Failed to lodge any account of his election expenses.
2.	-do-	-do-	Saravanan, M. No. 11/5, Lakshmi Illam, Kamarajar Salai, Kalanivasal New Road, Karaikudi, Sivaganga District	-do-
3.	-do-	32-Madurai	Chandra Bose, P. 7/5/1, Parsakthi Nagar, Avaniyapuram, Madurai-625 012	-do-
4.	-do-	36-Thoothukudi	Shanthadevi S. 3/167, Gramachavadi Street, Karungulam, Srivaikuntam Taluk- 628615	-do-
5.	-do-	-do-	Vinston Anto S. 19, Sethuraja Street, Thoothukudi -628 001	-do-

[No. 76/TN-HP/2014]

By Order,

TAPAS KUMAR, Senior Principal Secy.

नई दिल्ली, 18 मार्च, 2015

आ.अ. 20.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13-क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग उड़ीसा राज्य सरकार के परामर्श से एतद्द्वारा, श्री देवेन्द्र नाथ गुप्ता, भा.प्र.से. (उड़ीसा : 1989), को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से आगामी आदेशों तक के लिए उड़ीसा राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नामित करता है।

2. श्री देवेन्द्र नाथ गुप्ता, भा.प्र.से. उड़ीसा राज्य सरकार के अधीन सभी पदभार या किसी कार्य के पदभारों को तत्काल सौंप देंगे या धारण करना समाप्त कर देंगे, जो कि वे ऐसा पदभार ग्रहण करने से पहले धारण कर रहे थे।

3. श्री देवेन्द्र नाथ गुप्ता, भा.प्र.से. (उड़ीसा : 1989), मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उड़ीसा राज्य के रूप में कार्य करते हुए उड़ीसा राज्य सरकार के अधीन किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण नहीं करेंगे, सिवाय इसके कि उनको राज्य सचिवालय में निर्वाचन विभाग के प्रभारी, सरकार का सचिव पदाभिहित किया जायेगा।

[सं. 154/ओ.आर./2015/नि. यो. अ.]

आदेश से,
सुमित मुखर्जी, सचिव

New Delhi, the 18th March, 2015

O. N. 20.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 13A of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission of India, in consultation with the Government of Odisha, hereby nominates Sh. D. N. Gupta, IAS (OR:1989) as the Chief Electoral Officer for the State of Odisha with effect from the date, he takes over charge and until further orders.

2. Sh. D. N. Gupta, IAS shall cease to hold and hand over forthwith the charge of all or any charges of work under the Government of Odisha which he may be holding before such assumption of office.

3. Sh. D. N. Gupta, IAS while functioning as the Chief Electoral Officer, Odisha shall not hold any additional charge whatsoever under the Government of Odisha except that he should be designated Secretary to the Government in charge of Election Department in the State Secretariat.

[No. 154/OR/2015-EPS]

By Order,
SUMIT MUKHERJEE, Secy.

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 18 मार्च, 2015

आ.अ. 21.— भारत निर्वाचन आयोग के दिनांक 7 जनवरी, 2015 के आदेश संख्या 76/गुजरात-लो.स./2014 से संलग्न सारणी में क्रम संख्या 5 पर प्रदर्शित निरर्हित अभ्यर्थी के नाम एवं पते “ठाकोर मानसंगजी पुन्जाजी, स्थान एवं डाकघर-डाभला, तालुक-वीजापुर, जिला-महेसाणा (गुजरात)” को इसके स्थान पर “ठाकोर बाबूजी धानाजी, स्थान मोटो ठाकोरवास जगुदान, तालुक एवं जिला-महेसाणा (गुजरात)” पढ़ा जाएगा। यह दिनांक 07 जनवरी, 2015 से प्रभावी माना जाएगा।

[सं. 76/गुजरात-लो.स./2014/334]

आदेश से,
के. अजय कुमार, प्रधान सचिव

CORRIGENDUM

New Delhi, the 18th March, 2015

O. N. 21.— In the table appended to the Election Commission of India's Order No. 76/GJ-HP/2014 dated 7th January, 2015, the name and address of the disqualified candidate appearing at Sl. No. 05 viz., "Thakur Mansangji Punjaji, At. & P.O.- Dabhol, Ta Vijapur, Dist. Mahesana (Gujarat)" shall be read as "Thakur Babuji Dhanaji, Moto Thakor Vas, At. - Jagudan, Ta. & Dist. Mehesana." This shall be deemed to be effective from 07th January, 2015.

[No. 76/GJ-HP/2014/334]

By Order,
K. AJAY KUMAR, Principal Secy.